

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 फ़रवरी 2023

प्रश्न -1

अमृत कलश, एक सीमित अवधि की डिपॉजिट योजना किस निम्नलिखित बैंक द्वारा शुरू की गई थी?

- A) बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) इंडियन बैंक
- C) पंजाब एंड सिंध बैंक
- D) भारतीय स्टेट बैंक

सही उत्तर: D

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अमृत कलश डिपॉजिट नामक उच्च ब्याज दर जैसी विशिष्ट अवधि और लाभों के साथ एक नई खुदरा डिपॉजिट योजना शुरू की है। अमृत कलश डिपॉजिट योजना में दी जाने वाली ब्याज दर नियमित नागरिकों के लिए 7.10%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60% है।

प्रश्न-2

फरवरी 2023 के अपडेट में मॉर्गन स्टेनली के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है?

- A) 5.9%
- B) 6.2%
- C) 7.2%
- D) 7.9%

सही उत्तर: B

मॉर्गन स्टेनली ने हाल ही में जारी एक शोध रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि आसन्न मंदी की आशंका के बीच घरेलू मांग की दर बरकरार है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 फ़रवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा?

- A) उत्तराखंड
- B) पंजाब
- C) हिमाचल प्रदेश
- D) हरियाणा

सही उत्तर: D

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी से 150 किमी उत्तर में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।

प्रश्न-4

निम्नलिखित में से किसे UNICEF इंडिया द्वारा अपने नेशनल एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अमिताभ बच्चन
- B) आयुष्मान खुराना
- C) राहुल गांधी
- D) शत्रुघ्न सिन्हा

सही उत्तर: B

UNICEF इंडिया ने बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एंबेसडर नियुक्त किया। 38 वर्षीय अभिनेता इससे पहले बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और व्यापक बाल अधिकार एजेंडे के लिए UNICEF इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुके हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 फ़रवरी 2023

प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता?

- A) चीन
- B) भारत
- C) मलेशिया
- D) दक्षिण कोरिया

सही उत्तर: B

दो युगल टीमों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत को सेमीफाइनल में चीन से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा और उसे दुबई में बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैम्पियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

प्रश्न-6

भारत-उजबेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास-दुस्तयलिक 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था?

- A) अरुणाचल प्रदेश
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) राजस्थान
- D) उत्तराखंड

सही उत्तर: D

भारतीय सेना और उजबेकिस्तान सेना के बीच सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में , द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यासदुस्त लिक2023) का चौथा संस्करण 21 फरवरी से 05मार्च, 2023 तक पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 फ़रवरी 2023

प्रश्न-7

विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया था?

- A) 21 फ़रवरी
- B) 20 फरवरी
- C) 19 फरवरी
- D) 18 फ़रवरी

सही उत्तर: B

हर साल, 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य लक्ष्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और विभिन्न समुदायों को एक साथ लाना है।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 'सागर परिक्रमा' के तीसरे चरण का अनावरण किया है?

- A) अर्जुन मुंडा
- B) धर्मेन्द्र प्रधान
- C) पुरुषोत्तम रूपाला
- D) सर्बानंद सोनोवाल

सही उत्तर: C

'सागर परिक्रमा' का तीसरा चरण 19 फरवरी 2023 को सूरत, गुजरात से शुरू किया गया था और 21 फरवरी 2023 को सैसन डॉक, मुंबई में समाप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछुआरों के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से परिक्रमा का अनावरण किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 फ़रवरी 2023

प्रश्न-9

भारत के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में तरकश सैन्य अभ्यास आयोजित किया है?

- A) अमेरिका
- B) रूस
- C) मलेशिया
- D) चीन

सही उत्तर: A

तरकश नामक भारत-अमेरिका संयुक्त अभ्यास चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। अभ्यास में आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए एक ड्रिल भी शामिल किया गया था।

प्रश्न-10

भारत की पहली 'फ़ोजन लेक मैराथन' कहाँ आयोजित की गई थी?

- A) दिल्ली
- B) लद्दाख
- C) ओडिशा
- D) सिक्किम

सही उत्तर: B

भारत की पहली 'फ़ोजन लेक मैराथन' लद्दाख के पेंगोंग त्सो में 13,862 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को रेखांकित करने के लिए मैराथन को 'लास्ट रन' नाम दिया गया है।